ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office:

DSC 260 South Court, DLF Saket, New Delhi-110017

Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in

Tel.: +91-7048959386 | CIN: L51503DL1985PLC020195

Ref.No.: AIL/BSE/46/2023-24 Date: 08.02.2024

To
The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Security Code No.: 539189

<u>Subject: Newspaper clippings of the published financial for the quarter and nine</u> months ended on December 31, 2023

Dear Sir/ Ma'am

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Un-audited financial results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, for the quarter and nine months ended on December 31, 2023, as published in following newspapers:

- 1. Financial Express (English Language) dated 08th February, 2024.
- 2. Jansatta (Hindi Language) dated 08th February, 2024

Copies of the Newspapers clippings are also available on the website of the Company i.e. https://adhbhutinfra.in/ and on the website of the BSE i.e. www.bseindia.com.

Please take the same on your records.

Thanking you.

For ADHBHUT INFRASTRCTURE LIMITED

Anubha Digitally signed by Anubhav Dham Date: 2024.02.08 10:49:43 +05'30'

Anubhav Dham Managing Director DIN: 02656812

Encl.: A/a

FINANCIAL EXPRESS

Date: 08-02-2024 Place DELHI

New Delhi - 110 005.

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: Chola Crest C 54 & 55, Super B - 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Enter a better life Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh,

POSSESSION NOTICE UNDER RULE 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the

outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and

any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

SL NO	NAME AND ADDRESS OF APPLICANT & LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE OF DEMAND NOTICE	OUTSTANDING	DETAILS OF PROPERTY POSSESSED	DATE OF SYMBOLIC POSSESSION
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	Loan Account No. X0HEEDL00001691503, X0HEEDL00001447900 & HE02EDL00000004747 1. PRATEEK JHA (APPLICANT) 2. ROSE JHA (CO_APPLICANT) 3. PRASHANT KUMAR JHA (CO_APPLICANT) 4. M/S LOTUS PLANTATIONS (THROUGH ITS PROPRIETOR PRATEEK JHA) (CO_APPLICANT) All are residing at: FLAT NO.6, DINAPPARTMENT, PLOT NO.7, SEC-4, DWARKA, DELHI-110045 Also at: FLAT NO. 432, DDA SFS FLATS, SEC-22, DWARKA, DELHI-110075	06-11-2023	Rs.81,20,386/- as on 06-11-2023	FLAT NO.6 SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF THE DIN CO-OP. GROUP HOUSING SOCIETY LTD. BUILT ON PLOT NO.7, SECTOR -04, DWARKA, PHASE -1, PAPPANKALAN, NEW DELHI - 110045 (PLINT AREA MEASURING 87.89 SQ.MTRS).	06th Feb 2024 SYMBOLIC

SPARK MINDA

Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

Minda Corporation Limited CIN: L74899DL1985PLC020401

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 Corporate Office: D-6-11, Sector – 59, Noida – 201301, Uttar Pradesh

Website: www.sparkminda.com, E-mail: investor@mindacorporation.com

Telephone: +91-0120 - 4442500

NOTICE OF POSTAL BALLOT

The Members of Minda Corporation Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021 03/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") Regulation 44 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (the "Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Articles of Association of the Company and any other applicable law, rules, circulars, notifications and regulations (including any statutory modifications or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of the members of the Company is sought for the following resolution through postal ballot ("the Postal Ballot") by way of remote e-voting ("e-voting") process:-

Description of Special Resolution

Appointment of Mr. Ravi Sud (DIN: 00074720) as an Independent Director of the Company for a period of 5 (five) years

Pursuant to the MCA circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Wednesday, February 07, 2024 through electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) as on Friday, February 02, 2024 ("Cut-off date") The said notice is also available on the website of the Company www.sparkminda.com, the relevant section of BSE Limited (BSE) www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited (NSE) www.nseindia.com on which the equity shares of the Company are listed and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, members can vote only through e-voting process. The voting rights of the members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the Cut-off date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing e-voting facilities to all its members. The e-voting shall commence from Monday. February 12, 2024 at 9,00 A.M. IS and end on Tuesday, March 12, 2024 at 05.00 P.M. IST. The e-voting facility will be blocked by NSDL immediately thereafter i.e. e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Members who have not updated their email address are requested to register the same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Skyline Financial Services Private Limited either by email to admin@skylinerta.com or by post to D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1 New Delhi- 110020.

The Board has appointed Mr. Biswajit Ghosh (FCS-8750, CP no-8239), Partner, failing him Mr. Pramod SM (FCS-7834, CP no-13784), Partner, BMP & Co. LLP, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result of the e-voting by Postal Ballot will be announced not later than 2 working days or 3 days, whichever is earlier from the conclusion of e-voting and will also be displayed on the Company website www.sparkminda.com, as well as on NSDL's website www.evoting.nsdl.com and communicated to the stock exchanges and RTA.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting use manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email id – evoting@nsdl.com or at telephone nos.:- +91 022 24997000, +91 022 48867000, who will also address the grievances connected with voting by electronic means or may contact the Company Secretary, Minda Corporation D-6-11, Sector-59, Noida - 201301, Tel: 0120-4442500 or email at investor@mindacorporation.com.

For Minda Corporation Limited

Pardeep Mann **Company Secretary** M. No. A-1337

Property Address

EAST COAST RAILWAY e-TENDER NOTICE No.: SNTPBBS-032024-JKPR-GTA

NAME OF WORK : PROVISION OF AUTOMATIC BLOCK SIGNALING SYSTEM WITH DUAL MSDAC AND ALTERATION IN EXISTING EI/PI/RRI STATIONS IN THE SECTION OF JAKHAPURA-NERGUNDI, KHURDA ROAD - BHUSUNDPUR & BHUSUNDPUR- GOLANTHRA OVER KHURDA ROAD DIVISION OF EAST COAST RAILWAY. Approximate Advertised Value (₹):

180,07,61,541.02, EMD (₹): 91,53,80 Completion Period: 24 Months. Tender Closing Date and Time: At 1530 Hrs. of 29.02.2024.

Pree-Bid Conference Date & Time: 13.02.2024 at 1530 Hrs. No manual offers sent by Post/Courier,

Fax or in person shall be accepted agains such e-tenders even if these are submitted on firm's letter head and received in time All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration Complete information including e-tender documents of the above e-tender is available

n website: http://www.ireps.gov.in. Note: The prospective tenderers are advised to revisit the website 15 (Fifteen) days before the date of closing of tender to note any changes/ corrigenda issued for

Dy. CSTE/Project, PR-120/CG/23-24 Bhubaneswar

Form No. INC-26

{Pursuant to Rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government,

Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 or

Companies Act, 2013 and clause (a) of

sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

AŃD

In the matter of IBA INFOTECH PRIVATE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS IBAA INFOTECH PRIVATE LIMITED) (CIN: U72900DL2017PTC314050)

having its Registered Office at UG-1, E-21, JAWAHAR PARK LAXMI

NAGAR, DELHI, EAST DELHI-110092

NOTICE is hereby given to the General Public

that the Applicant Company proposes to

make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act,

2013 seeking confirmation of alteration of the

Memorandum of Association of the Company

in terms of the special resolution passed at the

Extra Ordinary General Meeting held on 31s

January, 2024 to enable the Company to change its Registered Office from "National

Capital Territory of Delhi" to the "State of

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the

registered office of the company may deliver

(www.mca.gov.in) by filing investor

complaint form or cause to be delivered or

send by registered post his /her objections

supported by an affidavit stating the nature of

his / her interest and grounds of opposition to

the Regional Director, Northern Region,

Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd

Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO

Complex, New Delhi-110003 within fourteen

(14) days from the date of publication of this

notice with a copy to the applicant Company

at its Registered Office at the address

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

advertisement in any

IDFC FIRST

manner whatsoever.

For & on behalf of IBA INFOTECH PRIVATE LIMITED

CHANDAN OJHA

DIN: 07737084

IBA INFOTECH PRIVATE LIMITED

UG-1, E-21, JAWAHAR PARK LAXMI

NAGAR, DELHI, EAST DELHI-110092

the

MCA-21

Uttar Pradesh".

on

mentioned below:-

Date: 08.02.2024

Place: Delhi

.. Applicant Company / Petitioner

PA Muthoot Homefin

Muthoot Homefin (India) Ltd.

POSSESSION NOTICE (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Corporate Office: Unit No. 19-NE, 19th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Near Ruparel College, Dadar (West), Mumbai, Maharashtra- 400 028

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Muthoot Homefin (India) Ltd. (MHIL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12)read with Rule 3 of the Security Interest(Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s)issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s)/ Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Muthoot Homefin (India) Ltd. for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Loan Account No./Branch	Brief details of secured assets	Date of Demand Notice & Total Outstanding Dues (Rs.)	Possession Taken Date 05-Feb- 2024	
1.	Vijay Kant/ Sarvesh/ 056-05600283/ Ghaziabad	Plot No. 63-A, Khasra No. 955 Chhapraula, Dadri G B Nagar Uttar Pradesh- 219	28-Nov-2023/ Rs. 11,26,991/- (Rupees Eleven Lakh Twenty Six Thousand Nine Hundred Ninety One Only.)		
2.	Nikhil/ Pooja/ Mr Chetan Chugh/ 058-05800505/ Noida	House No.B-2, Khasra No. 739 Keshav Puram-2 Accheja, Pargna & Tehsil Dadri Gautam Budha Nagar Uttar Pradesh- 203207	27-Oct-2023/ Rs. 9,98,675/- (Rupees Nine Lakh Ninety Eight Thousand Six Hundred Seventy Five Only.)	05-Feb- 2024	

Date: February 08, 2024 Place: UP/NCR

Sd/- Authorized Officer, Muthoot Homefin (India) Limited

Description of the property

Can Fin Homes Ltd

DDA Building, 1st Floor, Near Paras Cinema, Nehru Place, New Delhi-110019 Ph.: 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108 Email: delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

CAN FIN HOMES LTD.

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 9(1)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-AUCTION SALE NOTICE for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. NOTICE is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., New Delhi, Nehru Place Branch, will be sold by holding e-auction or "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 28.02.2024, for recovery of mentioned hereinafter due to Can Fin Homes Ltd. from respective Borrowers and Guarantors as on the respective dates of demand notice, together with further interest and other charges thereon.

No	. Guarantors	as on date	Price	Money Deposit	Possession	
1.	Mrs. Anita (Borrower), Mr. Naresh Kumar (Co-Borrower) Mr. Raj Kumar (Guarantor)	Rs. 32,83,837/- as on 07.02.2024	,,	Rs. 2,10,000/-	Physical	HOUSE NO-A-1/192, BLOCK-A-1, DLF DILSHAD EXTN-II, BHOPURA, SAHIBABAD, GHAZIABAD-201005, U.P, ADMEASURING 30.10 SQ MTR Boundaries: NORTH: ROAD, SOUTH: OTHER EAST: PLOT NO-A-1/191, WEST: PLOT NO-A-1/193 Known encumbrances, if any- NIL
2.	Mr. Vikash Kumar (Borrower), Mrs. Priya Verma (Co-Borrower), Prashant Verma (Guarantor)	Rs. 62,49,665/- as on 07.02.2024	Rs. 19,10,000/-	Rs. 1,91,000/-	Physical	Flat No-FF-3, 1ST Floor, Plot No-1/208, MIG, Back Side, Sector-1, Vasundhara, Ghaziabad, Pin-201012, Uttar Pradesh, Admeasuring 50 Sc Mtr. Boundaries: EAST: Other Property, WEST: Flat No-FF-4 NORTH: Flat No-FF-2, SOUTH: Other Property Known encumbrances, if any- NIL

The detailed terms and conditions of the sale are provided in the official website of Can Fin Homes Ltd., (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx). Link for participating in e-auction: www.bankeauctionwizard.com

DATE: 07.02.2024, PLACE: New Delhi

Sd/- AUTHORISED OFFICER, CAN FIN HOMES LTD.

SUPRANEET FINANCE AND **CONSULTANTS LIMITED** Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555 E-Mail: info@sfclindia.com Website: www.sfclindia.com

CIN: L65921DL1989PLC035261

NOTICE Notice is hereby given that, pursuant to

Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (the Listing Regulations) that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Monday, the 12^{th} February, 2024 at 2:00 p.m at Regd. Office of the company, inter-alia, to consider & approve the unaudited financial results for the Quarter ended 31^{st} December, 2023 and any other matter with the permission of chair.

It is further notified in pursuance of Regulation 47(2) of the Listing Regulations that the further details may be accessed on Company's website (www.sfclindia.com) and may also be accessed on website of Metropolitan Stock Exchange (www.msei.in)

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in shares of the Company has been closed from 1st January, 2024 till 48 hours after the said financial results are declared to the Stock Exchanges.

For Supraneet Finance and Consultants Limited Place : Delhi (Deepti Jain)

Date: 7th February, 2024 Company Secretary

TALBROS

Name of the Borrowers and | Amount due | Reserve | Earnest | Type of |

TALBROS ENGINEERING LIMITED

CIN - L74210HR1986PLC033018 Regd. Off. 74-75-76, Sector-6, Faridabad, Haryana 121006

Ph # 0129-4284300 Fax # 0129-4061541, website: www.talbrosaxles.com, Email: cs@talbrosaxles.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2023

(Rupees in Lakhs Corresponding Year to 3 months ended Date / Nine Months in the previous Quarter **Particulars** Ending Ending vear 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 10,838.74 30,773.90 10,929.92 Total income from operations 596.21 1.805.28 968.30 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 968.30 596.21 1.805.28 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax 444.21 1,343.12 719.68 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 444.21 1,343.12 719.68 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital 507.65 507.65 507.65 11435.45 Reserves (excluding Revaluation Reserves) (As at 31st March, 2023) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-1. Basic: 8.75 26.46 14.18

Notes:

2. Diluted:

The above is an extract of the detailed information of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.talbrosaxles.com)

8.75

b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 07th February, 2024.

For and on behalf of the Board (Ankush Jindal)

14.18

Place: Faridabad Date: February 07, 2024

Executive Director DIN: 03634690 R/o H. No. 1002, Sector 8, Faridabad, Harvana 121006

26.46

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Off.: DSC 260 South Court, DLF Saket, New Delhi 110017 **Email**: adhbhut.ind@rediffmail.com | **Website**: www.adhbhutinfra.in | **Tel.**: +91-704

CIN: L51503DL1985PLC020195

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2023 (Amount in Lacs)

STANDALONE Nine Months Ended **Particular Quarter Ended Year Ended** No. 31.12.22 31.03.2023 31.12.23 30.09.23 31.12.23 31.12.22 (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) 25.33 59.94 23.85 218.31 155.17 Total Income from operations 310.81 -13.97 22.37 67.27 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or -14.7888.56 110.71 extraordinary items) Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or -13.97 22.37 -14.78 88.56 -1,189.13 -1,145.69 extraordinary items) Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or 2.91 16.61 -31.95 -1.206.30 80.48 -1,166.99 extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) 2.91 16.61 -31.95 80.48 -1,206.30-1,166.99 for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each) 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 (1,800.21)Other Equity Earnings per Share 8 0.03 0.15 -10.97 Basic -0.29 0.73 -10.61 Diluted 0.03 0.15 -0.29 0.73 -10.97 -10.61 b * EPS not annualized for the guarter ended December 23, December 22 and September 23 and nine month ended December 23 and December 22.

- The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 07 February 2024 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 07 February 2024.
- In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the statutory auditors have performed an limited review of the standalone financial results of the Company for the guarter ended and Nine months ended 31st December, 2023. There are no modifications in the
- The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('IndAS') prescribed under Section133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- As the Company has only one Operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.
- Previous period's figures have been re-grouped/re-classified to render them comparable with the figures of the current period.
- Exceptional item in year ended 31 March 2023 include impairment loss in respect of building for Rs. 1,256.40 lakhs on the basis of valuation report dated 25 July 2022 by the registered valuer.

For ADHBHUT INFRASTRUCTURE LTD.

Anubhav Dham Chairman cum Managing Director DIN:02656812

Authorized Officer Dated: 07.02.2024 **IDFC FIRST Bank Limited**

IDFC First Bank Limited

Place: Delhi

Date: 07.02.2024

Loan

Account

Date: 08.02.2024

Place: DELHI/NCR

financialex

c.in

Type of

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

Section

13 (2)

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Name of

borrowers and

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Outstanding

amount as

140.	No.	Loan	co-borrowers	Notice Date	per Section 13 (2) Notice	rivperty Address
1	18264889	HOME LOAN	1.SONA SEKH 2.SHARIFA BIBI SEKH	29.12.2023	24,73,285.48/	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FLAT NO. G-1, (M.I.G) (FRONT SIDE) (WITHOUT ROOF RIGHTS) ON GROUND FLOOR, ADMEASURING 65.03 SQ. MTR. I.E. 700 SQ. FT. (COVERED AREA)BUILT ON PLOT NO. A-82, BLOCK A, OUT OF KHASRA NO 399, SITUATED TA S.L.F VED VIHAR, HADBAST GRAM; SADULLABAD, PARGANA & TEHSIL: LONI, DISTRICT: GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201102, AND ENTIRE PLOT BOUNDED AS: EAST: PLOT NO. A-83, WEST: PLOT NO. A-81, NORTH: OTHER LAND, SOUTH: 9 MTR. WIDE ROAD
2	14908619	HOME LOAN	1. MR. SYED NASEEM HAIDER 2. MRS. ASHOOR FATIMA	29.12.2023	18,44,713.75/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING PLOT NO. 162, ADMEASURING COVERED AREA 46.45 SQ. MTR., TOTAL AREA 83.61 SQ. MTRS., THIRD FLOOR, BLOCK-D, KHASRA NO. 355, MIG, WITH ROOF RIGHTS, SLF VED VIHAR, VILLAGE SADULLABAD, PARGANA, LONI, TEHSIL DISTRICT, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201001, ADMEASURING 660 SQ. FTS., AND, BOUNDED AS: EAST: PLOT NO D- 163 WEST: PLOT NO D- 161 NORTH: PLOT NO D-149 SOUTH: ROAD 9 MTR WIDE
3	22756989 & 34282433	Loan Against Property	1. AJAY CHAUDHARY 2. KANCHAN DEVI	20.01.2024	13,98,069.78/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL FREE-HOLD HOUSE, BUIL UP OVER PLOT OF LAND MEASURING 50SQ. YDS, OUT OF 53 SQ. YDS., FALLING IN KHATA NO. 00013, KHASRA NO. 1125M, SITUATED IN OLD ABADI OF VILLAGE: BARAULA, TEHSIL: DADRI, DISTRICT: GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.), UTTAR PRADESH-201301, AND BOUNDED AS:- EAST: PLOT DIGAR WEST: RASTA 12FT. NORTH: PLOT DIGAR SOUTH: PLOT OF LOKESH
4	69067512 & 69049482	HOME LOAN	DEEPAK VERMA KANCHAN VERMA VEENA VERMA	25.01.2024	1,23,13,651.18/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL VILLA NO.F3-27, BLOCK-F3, HAVING BUILT-UP AREA OF 2091 SQ. FT., (199.259 SQ. MTRS.) CONSTRUCTED ON A FREEHOLD PLOT MEASURING 188.127 SQ. MTRS. (225 SQ. YDS.), SITUATED IN SECTOR-88 IN PARKLANDS, FARIDABAD, HARYANA-121002.
5	14257771	HOME	1. MR. RAJIV MOHAN	25.01.2024	22,35,.074.02/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. B-25, ADMEASURING 194.742

SQUARE YARDS, SECOND FLOOR, COVERED AREA MEASURING 81.33 SQ CHANDRA LOAN MTRS. MANSHA LUXURY FLOOR, GIP, SECTOR-72, SITUATED AT WAKA MRS. PRITI MAUJA NIMKA & MIJRAPUR, G.I.P. FARIDABAD TEHSIL TIGAO, FARIDABAD CHANDRA HARYANA-121003, AND, BOUNDED AS: EAST: 12 METRE WIDE ROAD WEST. PLOT NUMBER R-2/B-2 NORTH: PLOT NUMBER R-2/B-26 SOUTH: PLOT NUMBER R-2/B-24

known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

Place: New Delhi

New Delhi

The Financial Results for the guarter ended and Nine months ended 31st December, 2023 is available on the website of the Company https://adhbhutinfra.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com

अद्भूत इन्फ्रास्क्टचर लिमिटेड

CIN: L51503DL1985PLC020195

पंजीकृत कार्यालय: डीएससी 260 साऊथ कोर्ट, डीएलएफ साकेत, नई दिल्ली 110017

ईमेल : adhbhut.ind@rediffmail.com विवसाइट : www.adhbhutinfra.in | दरभाष: +91-7048959386

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के कथन का सार

(रू० लाखों में)

					समेकित		
क्र०	विवरण		समाप्त तिमाई	ì	समाप्त	नौमाही	समाप्त वार्षिक
सं०		31.12.23 (अनअंकेक्षित)	30.09.23 (अनअंकेक्षित)	31.12.22 (अनअंकेक्षित)	31.12.23 (अनअंकेक्षित)	31.12.22 (अनअंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)
1	संचालन से कुल आय	25.33	59.94	23.85	218.31	155.17	310.81
2	अवधि के लिए नेट लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	-13.97	22.37	-14.78	88.56	67.27	110.71
3	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-13.97	22.37	-14.78	88.56	-1,189.13	-1,145.69
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	2.91	16.61	-31.95	80.48	-1,206.30	-1,166.99
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	2.91	16.61	-31.95	80.48	-1,206.30	-1,166.99
6	चुकता इक्वीटी कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर)	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
7	अन्स इक्वीटी						(1,800.21)
8	प्रति इक्वीटी शेयर आय					7	
क	मूल	0.03	0.15	-0.29	0.73	-10.97	-10.61
ख	तरल	0.03	0.15	-0.29	0.73	-10.97	-10.61
* सम	। गाप्त तिमाही दिसम्बर 23, दिसम्बर 22, एवं सितम्बर 23, एवं समाप्त तिमाही ।	देसम्बर 23, एवं दि	सम्बर 22 का ईपी	एस सालाना नहीं	है।	9. 9.	

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणीः

- उपरोक्त अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का लेखा समिति द्वारा 07 फरवरी, 2024 समीक्षा और सिफारिस की गई और बाद में निर्देशक मंडल की 07 फरवरी, 2024 को सम्पन्न बैठक में अनमोदित किये गये।
- सेबी (सूचीबद्वता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के समेकित वित्तीय परिणामों का वैधानिक परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई। यहाँपर परीक्षण रिपोर्ट कोई संशोधन नहीं है।
- कम्पनीज अधिनियम. 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित साथ में पिठत उसके अन्दर बनाये गये प्रासांगिक नियमों एवं सेबी (सूचीबद्वता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) भारतीय लेखा मानकों ('आईएनडी एएस') के अनुसार ये वित्तीय परिणाम तैयार किये गये।
- चुंकि कम्पनी के पास केवल एक ऑपरेटिंग सेगमेन्ट रिपीटिंग है, इसलिए एएस 108-ऑपरेटिंग सेगमेन्ट के तहत सेगमेन्ट लागू नहीं है। चुंकि कम्पनी के पास केवल एक ऑपरेटिंग सेगमेन्ट रिपीटिंग है, इसलिए एएस 108-ऑपरेटिंग सेगमेन्ट के तहत सेगमेन्ट लागू नहीं है।
- पिछली अवधि के आकड़ों को वर्तमान अवधि के ओड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष को असाधारण मदों में पंजीकृत मूल्यांकन द्वारा 25 जुलाई, 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर रू० 1,256.40 लाख की बिल्डिंग के सम्बन्ध में हानि शामिल है।
 - 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट https://adhbhutinfra.in एवं बीएसई की वेबसाइट i.e. www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते अद्भूत इन्फ्रास्क्टचर लिमिटेड हस्ता०/-अनुभव धाम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक

DIN:02656812

IDFC FIRST

Bank

तिथि : 07.02.2024 स्थान : नई दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्वत: कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टावर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, घेटपेट, चेन्नई-600031. फोन : +91-44 4584 4000. फैक्स : +91 44 4584 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वत: कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और कर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) से निम्नवर्णित प्रत्याभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत हैं। जबकि वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं तथा अनियमित हो गए हैं, अतः उनके ऋण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनके द्वारा आईडीएफसी फरर्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वत: कॅपिटल फरर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जात) को देय राशि

संबंधित सूचनाओं में वर्णित की गई है, अधिक विवरण नीचे तालिका में दिया गया है और उक्त राशियों पर आगें ब्याज भी देय होगा, जो उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर पर प्रभारित किया धारा 13(2) के धारा 13(2) के कर्जदारों और सम्पत्ति पता तहत सूचना के खाता सं सह-कर्जदारों का

	10.70052.000		नाम	का ताब	अनुसार बकाया राशि	
1.	18264889	होम लोन	1. सोना सेख 2. शरीफा बीबी सेख	29-12-2023	24,73,285.48 / -	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : पलैट नंबर जी—1, (एम.आई.जी.) (फ्रंट साइड) (छत के अधिकार नहीं), भू तल, परिमाप 65.03 वर्ग मीटर यानी 700 वर्ग फीट (कवर्ड एरिया) प्लॉट नंबर ए—82 पर निर्मित, ब्लॉक ए, खसरा नंबर 399 का भाग, स्थित एस.एल.एफ. वेद विहार, हदबस्त ग्राम : सादुल्लाबाद, परगना एवं तहसींल : लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रद. श—201102 और सम्पूर्ण प्लॉट की चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : प्लॉट नंबर ए—83, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए—81, उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : 9 मीटर चौड़ी रोड
2	14908619	होम लोन	श्री सईद नसीम हैदर शीमती अशूर फातिमा	29-12-2023	18,44,713,75/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 162, परिमाप कवर्ड एरिया 46.45 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, तृतीय तल, ब्लॉक डी, खसरा नंबर 355, एमआईजी, छत के अधिकार सहित, एस.एल.एफ. वेद विहार, ग्राम : सादुल्लाबाद, परगना : लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001, परिमाप 660 वर्ग फीट, और चौडद्दी निम्नानुसार : पूरब : प्लॉट नंबर डी-163, पश्चिम : प्लॉट नंबर डी-161, उत्तर : प्लॉट नंबर डी-149, दक्षिण : 9 मीटर चौड़ी रोड
3.	22756989 एवं 34282433	सम्पत्ति पर ऋण	1. अजय चौधरी 2. कंचन देवी	20-01-2024	13,98,069.78 / -	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्रीहोल्ड आवासीय मकान, 53 वर्ग गज में से 50 वर्ग गज परिमाप के प्लॉट पर निर्मित, खाता नंबर 00013, खसरा नंबर 1125एम, पुरानी आबादी ग्राम बरीला, तहसील दादरी, जिला गीतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश), उत्तर प्रदेश—201301 तथा चौहददी निम्नानुसार : पूरब : प्लॉट दीगर, पश्चिम : रास्ता 12 फीट, उत्तर : प्लॉट दीगर, दक्षिण : लोकेश का प्लॉट
4.	69067512 एवं	होम लोन	 दीपक वर्मा कंचन वर्मा वीणा वर्मा 	25-01-2024	1,23,13,651.18/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय विला नंबर एफ3-27, ब्लॉक-एफ 3, बिल्ट-अप एरिया 2091 वर्ग फीट (199.259 वर्ग मीटर), फ्रीहोल्ड प्लॉट परिमाप 188.127 वर्ग मीटर (225 वर्ग गज) पर निर्मित, स्थित सेक्टर-88, पार्कलॅंड्स, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
5.	89049482 14257771	होम लोन	श्री राजीव मोहन चन्द्रा श्रीमती प्रीति चन्द्रा	25-01-2024	22,35,074.02 / -	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर बी-25, परिमाप 194.742 वर्ग गज, द्वितीय तल, कवर्ड एरिया परिमाप 81.33 वर्ग मीटर, मानसा लम्जरी फ्लोर, जीआईपी, सेक्टर-72, रिथत वाका मौजा नीमका एवं मिजरापुर, जीआईपी, फरीदाबाद, तहसील तिगांव, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 तथा चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : 12 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर आर-2/बी-2, उत्तर : प्लॉट नंबर आर-2/बी-26, दक्षिण : प्लॉट नंबर आर-2/बी-24

आपसे ऊपर तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर पर ब्याज और अन्य लागतों, प्रभारों इत्यादि के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वत: कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफरी। फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के मीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, अधोहरताक्षरी आईडीएकसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वत: कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लाथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जात) की बकाया राशि की वसूली के लिए इसमें वर्णित बंधक सम्पत्तियों के संबंध में सरकाशी अधिनियम की पारा 13(4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही करने हेतुं बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की घारा 13(13)

के तहत. आप उक्त प्रत्यामूत सम्पत्ति का हस्तांतरण किकी/पट्टे अथवा किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते हैं।

तिथि : 08-02-2024

संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

TCHHL034

700010006

60' चौडा आम रास्ता।

स्थान : दिल्ली / एनसीआर

प्राधिकत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जात)

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: १५वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - ११००१९ (भारत) दुरभाष नं.: 011-66155129 | फैक्स नंबर: 0120-4588513

ईमेल: Investor@racigeartech.com | वेबसाइट: www.racigeartech.com CIN: L34300DL1983PLC016136



31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (ईपीएस को छोड़कर र लाख में) कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन समाप्त समाप्त वर्ष से आज समाप्त वर्ष से आज समाप्त समाप्त पूर्व वर्ष समाप्त पूर्व वर्ष तिमाही तिमाही तिमाही तिमाही तक आकर्डे तक आकडें विवरण 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.03.2023 (अंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय 100.01 367.34 115.27 308.03 115.36 100.01 308.12 367.34 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, 16.62 16.23 41.94 51,42 16.94 16.23 42.21 51.33 असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) 16.62 51.42 16.23 16.23 41.94 16.94 42.21 51.33 (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ 37.45 12.02 11.97 30.99 37.43 12.41 12.00 31.39 (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के 37.16 12.04 11.85 30.87 37.15 12.34 11.88 31.18 लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पंजी 1078.16 1078.16 1078.16 1078.16 1078.16 1078.16 1078.16 1078.16 आरक्षित (पनर्मुल्यांकन आरक्षितों को 15669.72 15670.44 छोडकर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तलग पत्र में दशर्दि गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. १०/- प्रति 11.15 28.74 11.51 11.13 34.74 11.10 34.72 29.11 का) अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल

नोट्स:

स्थान : नोएडा

- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, २०१५ के विनियमन ३३ तथा सेबी सर्क्यूलर CIR/CFD/FAC/62/२०१६ तिथि ५ जुलाई, २०१६ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अनअंकेक्षित स्टैण्डएलॉन एवं कंसोलिडेटेड तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारुप कंपनी को वेबसाईट अर्थात www.raclgeartech.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- 3) दिसंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही के विस्तृत अनअकेक्षित स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की "सीमित समीक्षा" कमिटी द्वारा की गई तथा ०७ फरवरी, २०२४ को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए तथा ३१ दिसंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही के वितीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी और से आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड ग्रशरण सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेषक



दिनांक : ०७ फरवरी, २०२४

Canara Bank Trifigue Syndicate



केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंदवानी मार्केट, आूर्य नगर, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के ऊपर, ज्वालापुर, हरिद्वार, पिन-249407 ईमेल: roddn2rec@canarabank.com

नोटिस बाबत कब्जा नियम 13(4) देखें (अचल सम्पत्ति के लिए)

स्क्यिरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट नं. 54) तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट

इनफोर्समेंट नियम 2002 के नियम 3 के नियमानुसार साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / गारंटरों / स्वामी / कानूनी उत्तराधिकारी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी / गारंटरों / स्वामी / कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी / गारंटरों / स्वामी / कानूनी उत्तराधिकारी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। 'उधारकर्ता (ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है' ऋणी 🖊 गारन्टरों / स्वामी / कानूनी उत्तराधिकारी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन केनरा बँक सम्बंधित शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व खर्चों के पूर्ण भगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

ऋणी का नाम/ जमानती खाता धारक/ पता	शाखा मांग नोटिस एवं कब्जे की तारीख	बकाया राशि	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण
हिस्सा, पूर्व— 62.485 फीट, पश्चिम—62.485 फीट, उ 1874.55 वर्ग फिट, यानी 174.214 वर्ग मीटर सीमाएँ - और 8 फीट चौड़ा रास्ता। 2. बंधक समस्त वाणिजिय	05.09.2023 के बाव 11,76,327.31 (रूपये सी संत्ताईस और इव 2023 को + ब्याज वि 1533 में और रु. 7,83.12 क 05.09.2023 को + ब्या के बाद खाता 1700062 नाम— श्रीमती आशा प तर—30 फीट और दक्षिण पूर्व— विजयपाल की स् ह सम्पत्ति खाता नंबर 17 जिला— हरिद्वार, कुल व	जि दिनाक 08.08.2023 से+ व्यय 57204 में पत्नी श्री नरेंद्र कुमार, 1. बधंक स ग–30 फीट, ग्राम जिठेड़ी, परगना मंग् गंपत्ति, पश्चिम– बिजेंद्र की संपत्ति, उ 19. खसरा नंबर 70 का हिस्सा, पूर्व– भूमि क्षेत्रफल 1800.00 वर्ग फिट, यान	चल संपत्ति का विवरण— शीर्षक धारक का नाम— मेसर्स विनायक अस्पताल— O2 सिंट्रल गैस लाइन विद मैनिफोल्ड (5), फोगर (1), 5 पैरा मॉनिटर (4), सेमी फ्लावर बेड (5), बेड साइड लॉकर फ्लक्स (5), बेड साइड स्क्रीन (5), पेशेंट स्टूल (5), आईवी स्टैंड (5), ऑक्सीजन कॉन्ट्रेटर 10 लीटर (2), केश कार्ट (एसएस) (1), डेंटल चेयर सेट (1), पुलेक्सोक्सिमीटर (5), इम के साध आटोक्लेव (1), इनवर्टर+डबल, बेटरी (1 सेट)), स्ट्रैचर (1), ओ.टी. टेबल (1), ओ.टी. लाइट (1), एनेस्थासिया ट्रॉली (1), बेड (19), इंस्ट्रुमेंटल, इम (1), ऑक्सीजन कसंट्रेटर मशीन (3), मॉनिटर रपँग (2), ऑक्सीजन कसंट्रेटर मशीन (3), मॉनिटर रपँग (2), ऑपरेटिंग इंस्ट्रुमेंट किट (1) मस्त आवासीय सम्पत्ति खाता नंबर 179, खसरा नंबर 70 का गलौर, तहसील—रुडकी, जिला— हरिद्वार, कुल भूमि क्षेत्रफल तर—डॉ. अमित कुमार की संपत्ति, दक्षिण— आशा की संपत्ति 60 फीट, पश्चिम—60 फीट, उत्तर—30 फीट और दक्षिण—30 वी 167.286 वर्गमीटर सीमाएँ— पूर्व— विजयपाल की संपत्ति,
उधारकर्ता / जमानतकर्ता / मालिक	ज्वालापुर-।	₹. 34,50,120,41	शीर्षक धारक का नामू- श्रीमती मोनिका वर्मा पुत्री श्री

उधारकर्ता / जमानतकर्ता / मालिक ज्वालापुर-। ₹. 34,50,120,41 मैसर्स तिरूपति पोल्ट्री फार्म प्रॉप. श्रीमती मोनिका (रूपये चौतीस लाख पचास हजार एक सौ बीस और 01.11.2023 वर्मा पत्नी श्री प्रवींद्र कुमार निवासी ग्राम राजपुर, इक्तालिस पैसे मात्र)दिनांक डाकघर गोवधेनपुर, लक्सर, जिला हरिद्वार, 29.10.2023 को्+ ब्याज दिनांक 06.02.2024 30.09.2023 से+ व्यय-वस्ती उत्तराखंड 246734, 2. श्रीमती मोनिका वर्मा पत्नी श्री दिनांक 29.10.2023 के बाद खेला प्रवींद्र कुमार निवासी मकान नंबर 176, महांगी, संख्या ५०९७७७६००००० में सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247452, गारॅंटर -1. श्री प्रवींद्र कुमार पुत्र श्री रोहताश सिंह निवासी मझौला सतहत्तर मात्र) दिनांक गुजर, फीना, चांदपुर, उत्तर प्रदेश 246734, 2. श्री. 29.10.2023 को+ ब्याज दिनांक ज्वालापुर-। इन्दौर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी मकान दिनांक 29.10.2023 के बाद नंबर 176, महांगी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247452 01.11.2023 खाता संख्या 5097271000001 में और रु. 20,18,716.00 (रूपये 03.02:2024 बीस लाख अटठारह हजार सात सौ सोलह मात्र) दिनांक 29.10.2023 को+ब्याज दिनांक अचल संपत्ति का विवरण

समस्त आवासीय संपत्ति मकान नं0 2बी/436, पूर्व-60.00 फीट, पश्चिम-60.00 फीट, उत्तर-20.00 फीट और दक्षिण-20. 00 फीट, खेवट नंबर 1/1, खसरा नंबर 144 महल लक्ष्मीचंद वेक मौजा स्थित पठानपूरा, परगना और तहसील और जिला सहारनपुर दर आबादी मिशन कंपाउंड सहारनपुर। रु. 24,44,377.00 (रूपये चौबीस कुल भूमि क्षेत्रफल 111.47 वर्ग मीटर है। सीमाएँ- पूर्व-लाख चवालिस हजार तीन सौ रणबीर सिंह का घर, पश्चिम- राज कुमार खुराना का घर, उत्तर- बसंत कुमार का घर, दक्षिण- रास्ता 20 फीट चौड़ा (कब्जे की तारीख 06.02.2024) 01,10,2023 से+ व्यय - वसूली चल संपत्ति का विवरण शीर्षक घारक का नाम- मैसर्स तिरूपति पोल्ट्री फार्म

चल वस्त्एँ- स्वचालित फीडिंग सिस्टम, निपल ड्रिंकिंग सिस्टम, इवेपोरेटिव कुलिंग सिस्टम, कर्टेन विंचिंग सिस्टम, प्रेशर वॉशर, डोसाट्रॉन मेडिकेटर 01.10.2023 से+ व्यय - वस्ली शिर्षक घारक का नाम- श्रीमती मोनिका वर्मा पत्नी श्री

इन्दौर कुमार उर्फ इन्दौर सिंह पत्नी श्री प्रवींद्र कुमार

दिनांक 29.10.2023 के बादें प्रवींद्र कुमार

खाता 170004457965 में बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खाता नंबर 179. खसरा नंबर 70 का भाग, क्षेत्रफल पूर्व-62.485 फीट, पश्चिम-62.485 फीट, उत्तर-30 फीट और दक्षिण-30 फीट, ग्राम जठेड़ी, परगना मंगलौर, तहसील-रुड़की, जिला- हरिद्वार कुल भूमि क्षेत्रफल 1874.55 वेर्ग फीट यानी 174.214 वर्ग.मीटर सीमाएँ— पूर्व— विजयपाल की संपत्ति, पश्चिम— बिजेंद्र की संपत्ति, उत्तर— डॉ. अमित कुमार की संपत्ति, दक्षिण—

प्राधिकत अधिकारी, केनरा बैंक

RELIGARE ENTERPRISES LIMITED CIN: L74899DL1984PLC146935

Earnings Per Share (EPS)

before and after extraordinary

items (of Rs 10/- each, fully paid

Place: New Delhi

Regd. Office: 1407, 14th Floor, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi – 110019 Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2023



_								V		7200		khs, unless oth	ei wise stateuj	
				Stand	alone			Consolidated						
			Quarter Ended		Nine Mont	Nine Months Ended Year			Quarter Ended			ths Ended	Year Ended	
Particulars		December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Revenue from Operations	361.14	361.14 282.39	594.00	854.81	1,761.50	2,378.60	1,51,057.65	1,58,438.82	1,16,542.80	4,37,909.66	3,28,038.47	4,67,645.68	
2	Net Profit / (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items, and share in loss of joint venture)	19/12/19/19/19	(1,868.45)	(1,153.78)	(5,688.48)	(3,015.52)	(1,509.83)	4,072.59	5,896.77	(7,861.00)	21,127.84	(29,838.19)	(3,077.78)	
3	Net Profit / (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items and share in loss of joint enture)	A0.1000000000000	(1,868.45)	(1,153.78)	(5,688.48)	(3,015.52)	(1,509.83)	4,072.59	5,896.77	(7,861.00)	21,127.84	(29,838.19)	3,25,863.29	
4	Total Comprehensive Income for the Period (after Tax and Non-Controlling Interest)	34.00	(1,896.41)	(1,153.97)	(5,067.18)	(3,020.00)	(1,507.36)	2,548.92	3,151.89	(11,562.72)	12,573.60	(44,524.78)	3,03,208.13	
5	Equity Share Capital (Paid-up)	32,948.62	32,839.13	32,338.95	32,948.62	32,338.95	32,355.95	32,948.62	32,839.13	32,338.95	32,948.62	32,338.95	32,355.95	
6	Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,82,342.67	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,73,412.56	
7	Francisco Des Chans (FDC)				17		11.			F		87	9	

आशा की संपत्ति और 8 फीट चौड़ा रास्ता (कब्जे की तारीख 03.02.2024)

a. Basic EPS (Rs) (0.59)(1.53)(0.95)3.31 (0.76)(0.37)(0.47)0.61 0.78 (3.64) b. Diluted EPS (Rs) (0.37)0.76 3.27 (0.76)(0.59)(1.53)(0.95)(0.47)0.58 (3.68)The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months ended Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months ended Financial Results is available on the Company's website www.religare.com and Stock Exchanges' website www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Date: February 07, 2024

Dr. Rashmi Saluja **Executive Chairperson**

96.06

94.67

(12.51)

(12.52)

For and on behalf of the Board of Directors

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड www.readwhere.com

नीचे दी गई तारीख को कुल मांग सूचना की तिथि

बकाया देय रु. 31.01.2024 तक, राशि

ড. 30,71,977 / −

(तीस लाख इकहत्तर हजार नी

सौ सतहत्तर रुपये मात्र)

और एनपीए की तारीख

31.01.2024

और

03.01.2024



अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा। विनांक: 08.02.2024 स्थान:- लखनक

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम

T∧**T**∧ मार्ग, लोअर परेल, मुंबल-400013, सीआईएन नं: U67190MH2008PLC187552

माग-नोटिस प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ परित वित्तीय आरितयों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की बारा 13 (2) के तहत। वृंकि अघोडस्ताक्करी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) अधिकृत अधिकारी हैं और नियमों के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2)के तहत. पहले से ही नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी किए गए हैं कि यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह—उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) (सभी एक साथ या एक साथ 'दायित्वधारी'' के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिसध्कानूनी प्रतिनिधि (ओं) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित मांग नोटिस/सूबनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत ढाक ए.डी. द्वारा प्रदान की जाती हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारी/(ऑ)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी मितिनिधि,यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से

उपरोक्त के सम्बन्ध में, एक बार पुन: नोटिस दिया जाता है कि उक्त दायित्वधारी/(ऑ) /कानूनी वारिस/ कानुनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के शीतर, उनके संबंधित नामों व सम्मुख नीथे दी गई राशि, साथ ही कॉलम (डी) में नीये उल्लिखित संबंधित तिथियों से मुगतान की तिथि तक और/या उक्त दायित्ववारी/(ऑ) द्वारा निष्पादित की गयी ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजॉब्लेखॉं, यदि कोई हो,के अनुसार वसूली की तारीख तक नीचे दिए गए ब्याज के साथ उक्त राशि टीसीएचएफएल के भुगतान करने के लिए कहा है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित

प्रतिभृति संपत्तियों /अचल संपत्तियों धंगरवी संपत्तियों का विवरणः—सिमर रेजीडेंसी, सेक्टर—डी, अलीगंज स्ट्रीट और विस्तार योजना, वार्ड अलीगंज, तहसील और जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित , विक्रय

विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ आवासीय फ्लैट नंबर 201, 02वीं मंजिल, प्लॉट नंबर एमएस-69 और एमएस -70 पर निर्मित, 1575 वर्ग फूट यानी 146,375 वर्ग मीटर के सुपर

एरिया और कवर्ड एरिया 1229 वर्ग फुट यानी 114.22 वर्ग मीटर वाले सम्पत्ति के सभी ट्रकडे और

अंश। सीमाएँ: पूर्व- फ्लैट नंबर 202, पश्चिम- आम गली 40' चौडा, उत्तर- फ्लैट नंबर 204, दक्षिण

*अन्य ब्याज के साथ, जैसा कि ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कहा गय हैं, की दर पर अतिरिक्त ब्याज, भूगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकरिंगक खर्च

लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वधारी टीसीएचएफएल को पूर्वीक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो टीसीएचएफएल उक्त दायित्वधारी (ऑ)/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधि(ऑ) वं

जोखिम और लागत तथा उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के परिणामों के संबंध में और लागू नियमों

के तहत उपरोक्त प्रतिभूति संपत्ति (यों)/अचल संपत्ति (ओं) के खिलाफ पूरी तरह से आगे बढ़ेगा।

उक्त बाध्यताधारी(ऑ) के कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (ऑ) को उक्त अधिनियम के तहत टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अवल संपत्ति की बिक्री, पहे या अन्तक्षा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो

परिसंपत्तियों को बिक्री दायित्वकर्ता द्वारा क्रमशः टीसीएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

दायित्वचारी/(ओं)/ कानूनी वारिस

कानूनी प्रतिनिधि (ओ) का नाम

श्री सूर्य विजय सिंह

(उधारकर्ता) और

श्रीमती ममता सिंह

(सह-उधारकर्ता)

